



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2009, शनिवार/आश्विन 5—आश्विन 11, 1931
No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2009, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 140.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के 'संगम ज्ञापन तथा नियम' के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (निदेशक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	01*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	25000/- रु. (नियत) (पूर्व- पुनरीक्षित)	लागू नहीं होता	अल्पकालिक- संविदा पर भर्ती की अवधि पांच वर्ष या अभ्यर्थी द्वारा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगला आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, होगी।
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		
(7)			(8)		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
(9)			(10)		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।		
(11)			(12)		
(i) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या कार्यकाल के आधार पर अल्पकालिक- संविदा द्वारा।			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों विश्व-विद्यालयों के ऐसे अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 37400-67000 रु. (पीबी-4) के वेतनमान और 10000 रु. ग्रेड वेतन में 10		
(ii) चयन, प्रभारी मंत्री द्वारा गठित की जाने वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश अभ्यर्थियों के पैनल में से केन्द्रीय सरकार द्वारा					

(11)	(12)
किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति का गठन, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा।	<p>वर्ष की सेवा पूरी की हो। अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :-</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ पीएचडी;</p> <p>(ii) किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के समरूप शैक्षणिक स्थिति वाली संस्था में कम से कम दस वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) शिक्षा क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, अनुसंधान और प्रशिक्षण से जुड़े संगठन में, ज्येष्ठ स्तर पर प्रशासन में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) शिक्षा में मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री;</p> <p>(ii) शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता;</p> <p>(iii) स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने में व्यापक रुचि के अलावा संगठनात्मक और नेतृत्व की क्षमता;</p> <p>(iv) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं, विशेषकर शैक्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशन।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एफ. 1-5/2004-स्कूल-4]

एस. सी. खुंटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of School Education and Literacy)**

New Delhi, the 10th September, 2009

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by rule 14 of the 'Memorandum of Association and Rules' of the National Council of Educational Research and Training, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Council of Educational Research and Training (Director) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scales of pay.—The number of post, their classifications and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters to the post of Director shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person shall be eligible for appointment to the said post,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	01*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' (Non-Ministerial)	Rs. 25000/- (fixed) (pre-revised)	Not applicable	The tenure of recruitment on short-term contract will be for a period of five years or upto the age of 62 years of the candidate or until further orders whichever is earlier.
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972			Educational and other qualifications required for direct recruits		
(7)			(8)		
Not applicable			Not applicable		
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes				Period of Probation, if any	
(9)				(10)	
Not applicable				Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	
(11)				(12)	
(i) By transfer on deputation or short-term contract on tenure basis.				Officers of the Central or State Governments, Autonomous Organisations, Universities holding analogous posts on regular basis or ten years' completed service in the scale of pay of Rs. 37400-67000 (PB-4) with Grade Pay Rs. 10000. The candidate shall have the following qualifications :—	
(ii) Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee to be constituted by the Minister-in-charge. The Search-cum-Selection Committee shall be constituted a per the guidelines of the Government of India issued from time to time.				Essential :	
				(i) Ph.D. with First Class degree at the level of Post Graduation;	
				(ii) at least ten years' experience in academic standing corresponding to a University Professor;	
				(iii) at least five years' experience in administration at senior level in the organisation dealing in the policies, programmes, research and training in the education sector.	

(12)

Desirable :

- (i) Master's or Ph.D. degree in education;
- (ii) eminence in the field of education;
- (iii) organising and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct of reasearch on different aspects of school education;
- (iv) publications in journals, especially journals of education, of national and international repute.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Not applicable.

[No. F. 1-5/2004-Sch.-4]

S. C. KHUNTIA, Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd September, 2009

G.S.R. 141.—In the notification of Government of India, Ministry of Science and Technology (Department of Science and Technology) number G.S.R. 59 dated the 24th April, 2009 published at pages 199-202 in the Gazette of India in the Schedule II, —

Part II, Section - 3, Sub-Section (i) dated the 9th May, 2009, at page 201:

- (i) in line 2 for "SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)" read "SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)"
- (ii) in column (4) under the heading 'Scale of Pay' for Rs. 15,600-31,900/plus Grade Pay Rs. 5,400/- read "PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 5,400".

[F. No. SM/01/012/2006]

L. K. CHAWLA, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अ-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अ-तकनीकी पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अ-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची के स्तंभ 8 की मद संख्यांक (ii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

3438 GI/09-2

“(ii) प्रशासन, नकद और लेखा कार्य; और केन्द्रीय या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रम या निजी क्षेत्र के अधीन कम से कम पचास स्थानों के महिला छात्रावास में रखरखाव और/या प्रचालन कार्य करने में दो वर्ष का अनुभव रखता हो।”

[सं. डीजीईटी-ए-12024/2/2007-डब्ल्यूटी]

आर. के. आहलूवालिया, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम तारीख 7 अप्रैल, 2008, भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 29th September, 2009

G.S.R. 142.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Group 'C', Non Technical Post Recruitment Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Group 'C', Non-Technical Post Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C', Non-Technical Post Recruitment Rules, 2008, in the Schedule, in column (8), for item number (ii) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

“(ii) Two year's experience in administration, cash and accounts work; and maintaining and/ or operation work in a women's hostel with at least 50 seats under the Central or State Government or Public Sector Undertaking or Private Sector.”

[No. DGET-A-12024/2/2007-WT]

R. K. AHLUWALIA, Under Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India dated the 16th April, 2008 vide notification Number G.S.R. 285(E), dated 7th April, 2008.